

**कोविड-19 के संदर्भ में ट्रीज/स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एसओपी
SOP for Researchers and Training under
TREES/SMART program with reference to COVID-19**

कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी के कारण राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर उत्पन्न असाधारण स्थितियों के मद्देनजर ट्रीज/स्मार्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए चयन एवं मूल्यांकन समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यविधि का सुझाव दिया गया है-

With respect to an exceptional situation Nationwide and globally under pandemic situation of CORONA virus COVID-19. Following procedure suggested by Selection and Evaluation committee for Training and Research under TREES/SMART.

ट्रीज/स्मार्ट अनुसंधान कार्यक्रम TREES/SMART Research Program

ट्रीज/ स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता निम्नलिखित कार्यविधि का अनुपालन करेंगे।
The following procedure is adapted for researchers under TREES/SMART Programme.

- ट्रीज/ स्मार्ट के अंतर्गत स्कैन की गई सॉफ्टकॉपी में आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्व के समान रहेगी।
The procedure of receiving application as scanned softcopy under TREES/SMART e-mail id remains same.
- सैंक गाइड के अधीन दूरस्थ शिक्षा में परियोजना अनुसंधान करने के लिए आवेदक की सहमति वाले आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा।
The Applicants will consent to do Research project in distance learning under SAC Guide will be accepted.
- सहमति वाले आवेदन ट्रीज/ स्मार्ट चयन समिति को अभ्यर्थियों के चयन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।
The consented YES applications will be submitted to TREES/SMART selection committee for selection of candidates.
- अनुसंधानकर्ता विद्यार्थी के नामांकन के पूर्व संबंधित गाइड की सहमति भी अनिवार्य होगी।
The consent of respected Guide will also be required before taking research student.

- विद्यार्थी गाइड से परियोजना की आवश्यकतानुसार मुफ्त डेटा सेट/ ओपन स्रोत, उपग्रह डेटा एवं अन्य डेटा प्राप्त करेंगे एवं उनका उपयोग करेंगे।
The student will be using satellite data and other data as per requirement from guide, free data sets/open source as may be requirement of project.
- वे विश्लेषण के लिए फ्रीवेयर प्रतिबिंब प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर/ अन्य आवश्यक सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। अथवा यदि उन्हें विशिष्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है तो वह प्राप्त करना उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
He/ She will be using freeware Image processing software / other required software for analysis. OR if they need specialized Software then it will be an individual's responsibility to get it.
- ट्रीज/ स्मार्ट प्रशासन सुदूर दिशा-निर्देश के माध्यम से परियोजना के सहज क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।
TREES/SMART Administration will try to make all necessary arrangements for smooth execution of project through Remote guidance.
- विद्यार्थी जीओटीओमीटिंग/वेबएक्स/जित्सी अथवा इनके समान ऐप के माध्यम से ट्रीज/ स्मार्ट गाइड और अन्य सदस्यों को प्रस्तुतीकरण दिखाएंगे।
Student should make presentation through GOTOMeeting/WebEx/Jitsi or similar App to the TREES/SMART guide and other members.
- विद्यार्थी परियोजना की समाप्ति पर परियोजना रिपोर्ट एवं एक-पृष्ठ पीपीटी प्रस्तुत करेंगे।
Student should submit project report and one-page ppt at the completion of project.
- विद्यार्थी/ अनुसंधानकर्ता एसआरटीडी-ट्रीज, एसआरटीडी-स्मार्ट से पीडीएफ के रूप में प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।
Student/ Researcher will receive certificate in form of PDF from SRTD-TREES, SRTD-SMART.